

**“वर्तमान व्यवसायिक पारिस्थितियों में विपणन की चुनौतियों एवं अवसरों एवं उद्योगों के कानूनी चुनौतियों, कारण और समाधान पर गोष्ठी”**

दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को सायं 05:30 बजे से मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, टी.आई.ई. (TiE) एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन- कानपुर चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में “वर्तमान व्यवसायिक पारिस्थितियों में विपणन की चुनौतियों एवं अवसरों (Marketing Challenges and Opportunities)” पर एक वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें “उद्योगों से जुड़ी हुए कानूनी चुनौतियों, कारण और समाधान (Legal Challenges- Reasons and Solutions)” पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी |

इस वार्ता में मुख्य वक्ता श्री निधीश मेहरोत्रा, (सह-संस्थापक, ANM Global Inc.) ने कानूनी चुनौतियों, कारण और समाधान के विषय पर एवं श्री सुनील अलघ, संस्थापक एवं अध्यक्ष, (SKA Advisor) ने वर्तमान व्यवसायिक पारिस्थितियों में विपणन की चुनौतियों एवं अवसरों पर अपने अनुभवों को सभागार में उपस्थित गणमान्यों से साझा किया |

उन्होंने बताया कि भारत में 5 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया की आबादी के समकक्ष 18 साल तक के नवयुवक बढ़ जाते हैंजिनकी सोच भिन्न होती है तथा आवश्यकता भी भिन्न होती है | विपणन जो कि बढ़ते समय के साथ-साथ एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरह से प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के क्षेत्र का उपयोग हो रहा है वह विपणन को प्रत्यक्ष रूप से नयी चुनौतियाँ दे रहा है |

विपणन के क्षेत्र से श्री सुनील अलघ, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एवं अनुभवी जो कि अन्य ब्रांड जैसे ब्रिटानिया टाइगर को सफलतापूर्वक स्थापित करने, और अन्य प्रमुख औद्योगिक संस्थानों जैसे गोडफ्रे फिलिप्स, महिंद्रा ग्रुप, बायोकोन एवं अन्य मुख्य उत्पादों के परामर्शदाता भी रहे हैं |

श्री निधीश मेहरोत्रा जी ने I.P.R. (Intellectual Property Rights) पर विस्तृत जानकारी दिया तथा Copyrights, Trademarks आदि से सम्बंधित प्रावधान |

मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ आई0एम0 रोहतगी जी ने मर्चेन्ट्स चैम्बर एवं टी.आई.ई. (TiE) तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन- कानपुर चैप्टर की ओर से मुख्य-वक्ता श्री निधीश मेहरोत्रा तथा श्री सुनील अलघ, गोष्ठी में उपस्थित आगंतुकों एवं समस्त मीडिया कर्मियों का स्वागत किया |

डॉ0 रोहतगी जी ने कहा कि हम सभी लोगों ने श्री निधीश मेहरोत्रा कानूनी चुनौतियों, कारण और समाधान के विषय पर तथा श्री सुनील अलघ जी द्वारा उद्योगों से जुड़े हुए कानूनी मुद्दों और उसके

प्रस्तावों पर उनके विचारों को सुना जो कि आज के वर्तमान व्यापारों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है |

डॉ० रोहतगी जी ने यह भी सूचित किया कि प्रासंगिक व्यापार के दृष्टिकोण में बदलाव को देखते हुए आज की यह गोष्ठी आयोजित की गयी है | और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है एक व्यापार तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए गतिशील एवं सतत प्रयासरत हो | इस प्रक्रिया में बहुत से व्यापार व्यवस्था जैसे कोडेक और नोकिया ध्वस्त हो गई है, जो एक लंबे समय से अधिपत्य में थे एवं बहुत से व्यापारों ने कीर्तिमान भी गढ़े हैं | और यह अत्यंत समझदार ग्राहकों के कारण भी हुआ है अर्थात जो भी ग्राहक चाहता है वह सस्ती कीमत पर एक बेहतर मूल्य वर्धित उत्पाद प्रदान भी किया गया |

आज की यह आयोजित गोष्ठी समस्त उद्यमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी | आज इस सुअवसर पर मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, टी.आई.ई. (TIE) एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन- कानपुर चैप्टर की ओर से हमारी संस्था मर्चेट्स चैम्बर हमारे माननीय मुख्य-अतिथियों को मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. आई. एम. रोहतगी द्वारा एक स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया |

#### **उपस्थित प्रमुख गणमान्य:**

इस कार्यक्रम में श्री पदम् कुमार जैन, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन- कानपुर चैप्टर एवं टी.आई.ई.-कानपुर चैप्टर के सदस्यगण, आई0आई0ए0 के अध्यक्ष श्री अनिल पाण्डेय, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, सदस्य, एम0सी0यू0पी0, श्री अमित तिवारी, श्री नवीन खन्ना, श्री मनमोहन राजपाल, श्री गोपाल सूतवाला, पेशेवर व्यापारीगण एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमीगण भी उपस्थित थे |

धन्यवाद,

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

(ए.के.सिन्हा)

सचिव

